FINANCIAL EXPRESS



Regd. Office: 3rd Floor, Areekal Mansion, Near Manorama Junction, Panampilly Nagar, Kochi- 682036 (Kerala) (CIN-L25111KL1972PLC002449) Tel: +91 484 4012046 Fax: +91 484 4012048, Email: investors@apollotyres.com Web: apollotyres.com

NOTICE OF 47th ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 47th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Company will be held on August 20, 2020, Thursday at 3:00 PM through video conference (VC), to transact the business as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with General Circular Nos.14/2020 (dated April 8, 2020), 17/2020 (April 13, 2020) 20/2020 (dated May 5, 2020) and 22/2020 (dated June 15, 2020), respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the said MCA Circulars read with the SEBI Circular dated May 12, 2020, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year ended on March 31, 2020 have been sent on July 29, 2020 to all the Members, whose email IDs are registered with the Company/ Depository participant(s) as on July 24, 2020. Please note that the requirement of sending physical copies of the Notice of the 47th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular. The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company at www.apollotyres.com, on the website of the National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, where the Company's

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report 2019-20 along with AGM Notice by email to investors@apollotyres.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-Voting or by e-Voting at the time of AGM and join the AGM through video conference (VC).

The Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. August 13, 2020, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting systems of NSDL. All the Members are informed that:

1. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means;

2. The remote e-Voting shall commence on August 17, 2020 at 10:00 AM (IST):

The remote e-Voting shall end on August 19, 2020 at 5:00 PM (IST);

4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is August 13, 2020 and a person who is not a Member as on the cut off date should treat this Notice for information purposes only;

5. Person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after sending of the Notice of AGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the AGM. If such a person is already registered with

NDSL for e-Voting, existing user ID and password can be used for casting vote; Members may note that a) the remote e-Voting module shall be disabled by the NDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is casted by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM; and d) a person whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting at the AGM

In case of any queries including issues and concerns related to remote e-Voting and voting at AGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the email ld: investors@apollotyres.com

For Apollo Tyres Ltd.

Seema Thapar Date: July 29, 2020 Company Secretary

MAHAR CAPITAL AND FINANCIAL SERVICES LIMITED Regd. Office: 375, Industrial Area-A.

Luchiana - 141 003 CIN: L45202PB2006PLC029968. E-mail: socnofs@owmnahar.com, Website: www.owmnshar.com Ph. 0161-2600T01, Fax: 0161-2222942

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on Wednesday, 12th day of August, 2020 at the Registered Office of the Company, to consider and approve the un-audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2020.

Further, in accordance to the Regulation 46 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the information of the aforesaid meeting is also available on the website of the Company i.e. www.gwmnahar.com and the website of the Stock Exchanges where the company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bselndia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For Hahar Capital and Financial Services Limited Argall Modgil

Place: Ludhiasa Date: 29.87.2020 (Company Secretary) NAHAR SPINNING MILLS LIMITED Regd. Office: 373, Industrial Area-A. Ludhiana - 141 003 CIN NO.: L17115PB1980PLC004341 E-MAIL: secnsm@owmnahar.com, Website: www.owmnahar.com

Ph. 0161-2600701, Fax: 0161-2222942 Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on Wednesday, 12th day of August, 2020 at the Registered Office of the Company, to consider and approve the un-audited Financial Results for the guarter ended 30th June, 2020.

Further, in accordance to the

Regulation 46 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the information of the aforesaid meeting is also available on the website of the Company i.e. www.owmnahar.com and the website of the Stock Exchanges where the company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com). For Hahar Spinning Mills Limited

Brij Shanna Place: Luthians Date: 29.87.2020 (Company Secretary)

Bombay Rayon Fashions Limited

Regd. Office: 3rd Floor, DLH Mangal Murti Building, Linking Road, Santacruz (West) 400054; Tel: +91 22 61068800, Fax: +91 22 61068830, E-mail ID: mail@bombayrayon.com, Website: www.bombayrayon.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020. STANDALONE CONSOLIDATED **Particulars** Quarter Ended Quarter Ended Year Ended Year Ended 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.12.2019 Audited Unaudited Audited Audited Audited Unaudited Audited Audited 111.95 124.92 487.96 941.46 89.89 130.49 488.49 973.65 Total Income from operations (Net) (601.02) (638.86)(583.75)(2.498.76)(2.425.90)Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional (722.08)(2,498.76)(2,423.17)and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and after (722.08)(2.866.12)(587.07)(728.03)(2.821.24)(2.425.83)(601.02)(2,423.17)Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit for the period after Tax and after Exceptional (285.32)(596.70)(1.879.96)(1,687.26) (257.69)(602.65)(1.829.24)(1,690.70)and/or Extraordinary items (257.69)(1,690.30)Total comprehensive income for the period for (after tax) (284.17)(596.70)(1,878.81) (1.686.74)(602.65)(1.828.09)and other comprehensive Income (after Tax) Equity share Capital (face Value of Rs. 10/- each) 317.48 317.48 317.48 317.48 317.48 317.48 317.48 317.48 Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance

Place: Mumbai

Dated: 28th July, 2020

sheet of previous year)

(Basic & Diluted) (not annualised)

Earnings Per Share (of 10/- each) (before OCI Tax)

No.

(a) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the year ended 31" March, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the said *Financial Results are available on the website of the Comany at www.bombayrayon.com and on the website of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com. (b) The above results have been reviwed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 28.07.2020

(18.79)

(59.22)

(53.15)

(9.00)

(c) The Company operates in a single segment of manufacture and sale of Textiles.

(in Rs. lakh, except earnings per share)

For and on behalf of Board of Directors

Prashant Agrawal **Managing Director**

GOKALDAS EXPORTS LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L18101KA2004PLC033475

Prestige Dot Com, No. 16/2, Residency Road, Bengaluru-560025. Tel: 080 41272200/01/02, 080-33477000 Fax: 33477491 E-mail: gokex@gokaldasexports.com Website: www.gokaldasexports.com

Statement of unaudited Standalone and Consolidated Ind AS Financial Results of Gokaldas Exports Limited for the period ended June 30, 2020

(Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regualtions, 2015)

9 1		1	Stan	dalone	1	Consolidated			
§1. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	Quarter Ended			Year Ended
		June 30, 2020	Mareh 31, 2020	June 30, 2019	March 31, 2020	June 30, 2020	March 31, 2020	June 30, 2019	March 31, 2020
1	Total Income	23,718.74	36,111.93	35,088.34	139,703.58	23,729.63	36,190.11	35,189.12	140,015.43
2	Net profit/(Loss) before tax and exceptional items	(389.32)	698.37	959.58	1,242.00	(425.97)	596.87	763.51	1,044.77
3	Net profit/(Loss) before tax and after exceptional items	(389.32)	698.37	3,564.36	3,235.94	(425.97)	596.87	3,368.29	3,038.71
4	Net Profit/(Loss) after tax and exceptional items	(389.32)	698.37	3,564.36	3,235.94	(425.97)	596.67	3,368.29	3,038.71
5	Total Comprehensive Income for the period / year	701.02	(1,722.98)	3,581.92	(364.90)	665.12	(1,822.24)	3,385,85	(559,89)
6	Paid-up equity share capital (Face value Rs. 5 each, fully paid up)	2,141.28	2,141.28	2,140.78	2,141.28	2,141.28	2,141.28	2,140.78	2,141.28
7	Other equity as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	6	÷		20,725.05	*	*		20,520.05
8	Earnings Per Equity Share (EPS) 1. Basic (Rs.) : 2. Diluted (Rs.) :	(0.91) (0.91)	1.63 1.53	8.32 7.85	7.56 7.11	(0. 99)	1.39 1.31	7.87 7.42	7.10 6.67

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.gokaldasexports.com).

Notice is hereby given that:

By order of the Board of Directors For Gokaldas Exports Ltd.

Sivaramakrishnan Vilayur Ganapathi Managing Director

DIN: 07954560



Date : July 29, 2020

Place: New Delhi

JK PAPER LTD. Creating lasting impressions

Place: Bengaluru



PASSION TO PERFORM

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020

			TANDALON	F	C	ONSOLIDAT	₹ in Crores	
Sr.		Quarter Ended		Year Ended	The relationship the		Year Ended	
No.	Particulars	30.06.2020	30.06.2019	31.03.2020	30.06.2020	30.06.2019	31.03.2020	
		(Unau	dited) (Audite		(Unaudited)		(Audited)	
1	Income from Operations (Gross)	505.46	760.78	3,294.37	511.11	761.32	3,300.26	
2	Total Income from Operations (Net)	482.73	733.37	3,135.46	496.48	732.32	3,164.00	
3	Profit before Interest and Depreciation (EBITDA)	97.58	266.70	984.96	89.79	256.35	975.17	
4	Net Profit before tax from ordinary activities and Exceptional Items #	34.51	200.11	718.59	12.82	188.07	696.39	
5	Net Profit after tax from ordinary activities and Exceptional Items #	25.05	136.15	492.71	2.66	123.45	468.41	
6	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax).	25.67	135.66	488.00	4.15	126.62	472.59	
7	Equity Share Capital	176.42	178.24	178.24	176.42	178.24	178.24	
8	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			2,189.81			2,187.25	
9	Earnings Per Share in Rs.10/- Share (EPS for the Quarters are not Annualised)							
i	Basic :	1.41	7.64	27.64	0.15	6.93	26.28	
ii	Diluted :	1.41	7.64	27.64	0.15	6.93	26.28	

Notes:

Place: New Delhi

Dated: 29 July, 2020

1) Pursuant to the requirements of SEBI (LODR) Regulations, 2018 (as amended), the Company has published consolidated quarterly and YTD results.

- 2) The above is an extract of the detailed format of Quarter Ended June 30,2020 Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on Company's website at www.jkpaper.com.
- # The Company does not have any Exceptional Items to report in above periods.

For JK PAPER LTD. Harsh Pati Singhania

(Vice Chairman & Managing Director)



Admin Office: Nehru House 3rd Floor, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 Ph: 91-11-33001132, 33001112, Fax: 91-11-23712680

Regd. Office: Central Pulp Mills, Fort Songadh, Dist. Tapi, Gujarat - 394660, Website: www.jkpaper.com Corporate Identity Number: L21010GJ1960PLC018099 • • | f /jkpaperindia • | /jkpaperindia

NOTICE OF 7th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

 The 7th Annual General Meeting ('AGM') of Jindal Stainless (Hisar) Limited ("the Company") will be held on Friday, 21st August, 2020 at 1:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without physical presence of the Members at a common venue.

In terms of the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 7th AGM and the Annual Report for the year 2019-20 including therein the Audited Financial Statements for financial year ended 31st March, 2020, have been sent on 29th July, 2020 only by email to the Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository participants. The requirement of sending the physical copy of the Notice of the 7th AGM and Annual Report to the members has been dispensed with vide MCA circulars and SEBI Circular.

Members holding equity shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut off-date i.e. 14th August, 2020, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through remote e-voting / e-voting facility of Link Intime India Private Limited ('Link Intime'). All members are

The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;

The remote e-voting shall commence on 18th August, 2020 at 9:00 A.M. (IST); The remote e-voting shall end on 20th August, 2020 at 5:00 P.M. (IST);

The remote e-voting facility will be disabled by Link Intime after the aforesaid date and time. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;

The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting / evoting during the AGM is 14th August, 2020;

VI. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories, as on the cut-off date i.e. 14th August, 2020 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / evoting during the AGM.

VII. Members who vote through remote e-voting would not be entitled for e-voting during the AGM.

VIII. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

IX. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 14th August, 2020, may obtain the User ID and password by sending a request at email: rajiv.ranjan@linkintime.co.in. However, a person who is already registered with Link Intime for e-voting then existing User ID and password can be used to cast

refer to the help section at https://instavote.linkintime.co.in or contact Mr. Rajiv Ranjan (Assistant Vice-President), Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai-400083 at Contact no. 022-49186000 (Email: rajiv.ranjan@linkintime.co.in) or contact the Company. XI. The Members holding shares in physical form who have not registered their

In case of any queries or grievance pertaining to E-voting, the members may

email addresses with the Company and who wish to receive the Notice of the 7th AGM and the Annual Report for the year 2019-20 and/or login details for joining the 7th AGM through VC/OAVM facility including e-voting can now register their e-mail addresses with the Company. For this purpose they can send scanned copy of signed request letter mentioning folio number, complete address and the email address to be registered along with self-attested copy of the PAN Card and any document supporting the registered address of the Member, by email to the Company at investorcare ishl@iindalstainless.com. Members holding shares in demat form are requested to register their email addresses with their Depository XII. Notice of AGM is also available on the Company's website

www.ishlstainless.com and also on the Link Intime's website https://instavote.linkintime.co.in.

XIII. Mr. Kamal Gupta. Advocate, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 17th August, 2020 to Tuesday, 18th August, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 7th AGM.

Notice of AGM is also available on the website of the Company at www.jshlstainless.com and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

> For Jindal Stainless (Hisar) Limited (Bhartendu Harit)

Date: 29th July, 2020

Place: Hisar

Company Secretary

Jindal Stainless (Hisar) Limited

Corporate Office: Jindal Centre, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110066

CIN: L27205HR2013PLC049963 Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar - 125005 (Haryana) Phone No.: (01662) 222471-83, Fax No. (01662) 220499

Place: Kolkata

New Delhi

Dated: 27.07.2020

ANUH PHARMA LTD.

CIN: L24230MH1960PLC011586

Regd. Office: 3-A Shivsagar Estate, North Wing Dr. Annie Besant Road,

Worli, Mumbai 400 018 Phone: +91 22 6622 7575; Fax: +91 22 6622 7600 Email: anuh@sk1932.com; Website: www.anuhpharma.com NOTICE NOTICE is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with the

(8.12)

(18.98)

(57.62)

(53.24)

Bipin N. Shah

Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Meeting of the Board of Directors is scheduled to be held on Friday, August 07, 2020, inter alia (i) to consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2020 (ii) to consider the proposal of Bonus Issue of Equity Shares and (iii) to fix the record date.

The said notice is also available on the website of the Company www.anuhpharma.com as well as on the website of the BSE Ltd. at www.bseindia.com. For Anuh Pharma Ltd

Date: July 29, 2020 **Managing Director** Place: Mumbai (DIN: 00083244)

ORIENTAL CARBON & CHEMICALS LIMITED Corporate Identity Number (CIN) - L24297WB1978PLC031539

Regd. Off: 31, Netaji Subhas Road, Kolkata 700 001 Tel: (033) 22306831, Fax: (033) 22434772 Email: investorfeedback@occlindia.com; Website: www.occlindia.com

> NOTICE OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting

('AGM') of the Members of the Company will be held on Tuesday, the August 18, 2020 at 10.30 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020, respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at the AGM venue. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 13, 2020 to August 18, 2020 (both days inclusive)

The Notice of the 40th AGM and the Annual Report of the Company including the financial statements for the financial year ended March 31, 2020 ("Annual Report") has been sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, namely, Link Intime India Private Limited ("RTA") or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circular/s and the SEBI Circular on July 27, 2020. The requirements of sending physical copy of the Notice of the 40th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars/s and SEBI circular.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut off date of August 11, 2020 may cast their vote electronically, as set out in the Notice of the 40th AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of Link Intime India Pvt. Ltd. (LIIPL).

In line with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 40th AGM of the Company has been uploaded on the website of the Company at www.occlindia.com. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges, namely, National Stock Exchange (NSE) at www.nseindia.com and Bombay Stock Exchange (BSE) at www.bseindia.com and the AGM Notice is also on the website of LIIPL (Agency for providing the Remote e-Voting facility) at https://instavote.linkintime.co.in.

The remote e-Voting period begins on the August 15, 2020 at 9:00 A.M. (IST) and ends on the August 17, 2020 at 5:00 P.M. (IST). During this period, Members of the Company, holding shares in the physical or dematerialized form, as on the cut-off date of Tuesday, August 11, 2020, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after despatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, August 11, 2020 may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in or kolkata@linkintime.co.in.

Shareholders/ Members who would like to express their views/ask questions during the Meeting may register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investorfeedback@occlindia.com by August 16, 2020 (5.00 p.m. IST).

Members holding shares in physical form who have not registered their

email addresses with the Company / Company's RTA / Depository, can get the same registered and obtain Notice of the 40th AGM of the Company along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2020 and / or login details for joining the 40th AGM of the Company through VC /OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email to the Company's RTA's email i.d., viz. kolkata@linkintime.co.in or Company's email i.d. viz. investorfeedback@occlindia.com :

a) a signed request letter mentioning your Name, Folio Number and Complete Address;

self attested scanned copy of the PAN Card;

self attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card.

Driving License, Voter Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company. In case shareholders/ members have any queries regarding e-voting,

they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in. under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 -4918 6000.

The afore-mentioned information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

For Oriental Carbon & Chemicals Limited

Company Secretary

Pranab Kumar Maity

Email Id.: investorcare.jshl@jindalstainless.com, Website: www.jshlstainless.com financialexp.epapr.in

तिरुवनतपुरम में पूर्णबंदी के बीच थोड़ी सी ढील

तिरुवनंतपुरम, २९ जुलाई (भाषा)।

तिरुवनंतपुरम के जिला प्रशासन ने शहर में पूर्णबंदी को जारी रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही कोरोना विषाणु से संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आजीविका सुनिश्चित करने और दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को बहाल करने के लिए कुछ प्रतिबंधों में ढील देने का भी निर्णय लिया है। कोरोना से संक्रमण के बढते मामलों के बाद शहर में पांच जुलाई से पुर्णबंदी लाग है। वहीं महीने की शुरुआत में ही अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण के सामुदायिक प्रसार की पृष्टि की थी, जिसके बाद जिले के दो तटीय क्षेत्रों को निरुद्ध क्षेत्र

घोषित किया था। राज्य सरकार ने राजधानी में पूर्णबंदी के प्रतिबंधों में ढील देने पर एक रिपोर्ट प्रस्तत करने के लिए मख्य सचिव की अध्यक्षता वाले पैनल की नियक्ति की थीं। जिला कलेक्टर डॉ. नवजोत खोसा ने मंगलवार देर रात जारी आदेश में कहा. 'जिले में अगले आदेश तक पर्णबंदी जारी रहेगी।'

(Rs. In Lacs except EPS)

(Rajesh Kumar Sanghi)

Managing Director DIN: 00482040

TINNA TRADE LIMITED

Registered Office: No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030 Website:www.tinnatrade.in, E-mail:investor.ttl@tinna.in, Telephone No.:011-49518530 Fax no.:011-26804883 CIN:L51100DL2009PLC186397

			STAND	(Rs. in lakhs)					
S.	PARTICULARS	Quarter Ended		Year Ended		Year Ended			
No.	7.110.110.110.110.110.110.110.110.110.11		31-Mar-20 31-Mar-19		31-Mar-20 31-Mar-19		31-Mar-20 31-Mar-19		
			Audited	Audited	Audited	Audited	Audited		
1	Total Income from Operations	4,356.25	10,771.87	29,101.55	47,789.53	30,309.29	48,759.36		
2	Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(261.88)	(68.73)	(466.03)	205.98	(353.36)	225.49		
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(261.88)	(68.73)	(466.03)	205.98	(353.36)	225.49		
4	Net profit/(loss) for the period after Tax (After Exceptional and / or Extra ordinary Items)	(194.66)	(41.64)	(369.76)	163.93	(257.09)	183.42		
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after Tax)	(194.09)	(37.59)	(374.11)	171.98	(263.35)	192.18		
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48		
7	Other Equity	-	_	2,106.04	2,480.15	1,951.65	2,268.68		
8	Earning Per Share(face value of Rs 10)- each share) (for continuing and discontinued operation)								
	(a) Basic	(2.28)	(0.49)	(4.32)	1.91	(3.64)	2.03		
	(b) Diluted	(2.28)	(0.49)	(4.32)	1.91	(3.64)	2.03		

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites ie www.bseindia.com and on the company's

2 The above standalone results were reviewed by the Audit Committee on 29th June, 2020 and approved by the Board of Directors at its meeting held on 29th June, 2020 and the consolidated results have been reviewed by the Audit Committee on 29th July, 2020 and approved by the Board of Directors at its meeting held on 29th July, 2020.

Date: 29th July, 2020

Place: New Delhi

FOR TINNA TRADE LIMITED Gaurav Sekhri Chairman & Managing Director

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110 067 with you, Right through) दूरभाषः 011—41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com कब्जा सूचना

चुंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और / या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भूगतान करने के लिए कहा गया।

क्र.	कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी	बकाया राशि	मांग सूचना	भौतिक कब्जा	अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत
सं.	प्रतिनिधियों का नाम / ऋण खाता संख्या		की तिथि	करने की तिथि	परिसम्पत्तियों का विवरण
1.	श्री विक्रम सिंह एवं सुश्री अनुपमा सिंह ऋण खाता सं. 628264670	30—नवम्बर—2019* के अनुसार रु. 53,20,633 / — (तिरपन लाख बीस हज़ार छह सौ तैंतीस रुपये मात्र)	- 2019	(भौतिक)	पलैट नं. जीजीएन—25—0901, 9वीं मंजिल, टॉवर / बिल्डिंग नं. 25, ईमार एमजीएफ गुड़गांव ग्रीन्स, गाँव धनकोट, सैक्टर 102, गाँव धनकोट, द्वारका एक्सप्रेसवे, गुड़गांव, हरियाणा के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।

*भुगतान और / या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी लागू अनुसार आगे ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागतें, प्रभार आदि के साथ।

हालाँकि, चूँकि यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदार बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए विशेषकर उपरोक्त वर्णित कर्जदार/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारियों ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति / प्रतिभूत परिसम्पत्ति का **भौतिक कब्जा** अपने पास ले लिया है।

विशेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्ज़दारों / कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति(यों) / प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति(यों) / प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्ज़दार(रों) / कानूनी उत्तराधिकारी(यों) एवं कानूनी प्रतिनिधि(यों) का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट / आमंत्रित किया जाता है / जाते हैं ।

लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और कथित कर्जदार (रों) / कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) / विधिक प्रतिनिधि (यों) से अनुरोध है / हैं कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर लें।

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. स्थानः दिल्ली

दिनांकः 29-जुलाई-2020

the Buyback, so that they can participate in the Buyback.

पंजीकृत कार्यालयः रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई—400 020 प्राधिकृत अधिकारी

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि

prior to Record Date, in his name, along with the offer form, copy of his PAN card and of the person from whom he has purchased shares and other relevant documents as required for 29. METHOD OF SETTLEMENT Upon finalization of the basis of acceptance as per Buyback Regulations: The Company will pay consideration to the Clearing Corporation on or before the pay in date

An unregistered shareholder holding Physical Shares may also tender his Equity Shares for

Buyback by submitting the duly executed transfer deed for transfer of shares, purchased

for settlement. For Equity shares accepted under Buyback, the Equity Shareholders will receive funds payout in their bank account from the Clearing Corporation The Equity Shares bought back in demat form would be transferred directly to the demat

account of the Company opened for buyback ("Demat Account") provided it is indicated by the Company's Broker or it will be transferred by the Company's Broker to the Demat Account on receipt of the Equity Shares from the clearing and settlement mechanism of BSE The Eligible Sellers will have to ensure that they keep the depository participant ("DP") account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares, due to

Excess demat Equity Shares or unaccepted demat Equity Shares, if any, tendered by the Eligible Sellers would be returned to them by Clearing Corporation. Any excess Physical I Shares pursuant to proportionate acceptance/rejection will be returned back to the concerned Eligible Shareholders directly by the Registrar to the Buyback. The Company is authorized to split the share certificate and issue new consolidated share certificate for the unaccepted Physical Shares, in case the Physical Shares accepted by the Company are less than the Physical Shares tendered in the Buyback.

The settlements of fund obligation shall be affected as per the SEBI circulars and as prescribed by BSE and Clearing Corporation from time to time. For Demat Shares accepted under the Buyback, such beneficial owners will receive funds pay-out in their bank account as provided by the depository system directly to the Clearing Corporation and in case of Physical Shares, the Clearing Corporation will release the funds to the Shareholder Broker(s) as per secondary market payout mechanism. If such shareholder's bank account details are not available or if the funds transfer instruction is rejected by the RBI/ bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholders will be

transferred to the Shareholder Broker for onward transfer to such shareholders. Company's Broker would also issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under the buyback. If Eligible Sellers bank account details are not available or if the fund transfer instruction is rejected by Reserve Bank of India or bank, due to any reasons, then the amount payable to Eligible Sellers will be transferred to the Seller Member for

onward transfer to the Eligible Sellers. Eligible Sellers who intend to participate in the Buyback should consult their respective Seller Member for payment to them of any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied by the Seller Member upon the Eligible Sellers for tendering Equity Shares in the Buyback (secondary market transaction). The Buyback consideration received by the Eligible Seller, in respect of accepted Equity Shares, could be net of such costs, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) and the Company accepts no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred solely by the Eligible Sellers.

viii. The Equity Shares bought will be extinguished in the manner and following the procedure prescribed in the Buyback Regulations.

The Board at their meeting held on June 16, 2020 appointed Mr. Abhinav Mathur, Company Secretary, as the compliance officer for the purpose of the Buyback ("Compliance Officer"). Investors may contact the Compliance Officer for any clarifications or to address their grievances, if any, during office hours i.e. 10.00 a.m. to 5.00 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:-



Mr. Abhinay Mathur Gokul Refoils and Solvent Limited

"Gokul House", 43 Shreemali Co-op. Housing Society Ltd., Opp. Shikhar Building, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009, Gujarat, India; Tel. No.: +917966304555/66615253/54/55; Email: abhinav.mathur@gokulgroup.com;

31. INVESTOR SERVICE CENTRE & REGISTRAR TO THE OFFER/RTA In case of any query, the shareholders may contact the Registrar & Transfer Agent on any day

except Saturday, Sunday and Public holidays between 10 am and 5 pm at the following address:



"Subramanian Building", No. 1, Club House Road, Chennai - 600 002, Tamilnadu, India Tel: +91 44 4002 0700; Fax: +91 44 2846 0129

Email: investor@cameoindia.com; Website: www.cameoindia.com SEBI Registration: INR000003753

Contact Person: Ms. Sreepriya. K 32. MANAGER TO THE BUYBACK

SAFFRON

Saffron Capital Advisors Private Limited (Corporate Identification Number: U67120MH2007PTC166711)

605, Sixth Floor, Centre Point, Andheri-Kurla Road, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai-400059 Tel. No.: +91 22 4082 0914/915 Fax No.: +91 22 4082 0999

Email id: buybacks@saffronadvisor.com; Website: www.saffronadvisor.com Investor grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com

SEBI Registration Number: INM000011211 Contact Person: Amit Wagle / Gauray Khandelwal

33. DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i) a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accept full and final responsibility for the information contained in this Public Announcement. For and on behalf of the Board of Directors of Gokul Refoils and Solvent Limited

Shaunak Mandalia Abhinay Mathur Balvantsinh Rajput Chairman & Managing Director Director Company Secretary and DIN-00315565 DIN-06649347 Compliance Officer ICSI Membership Number: 22613 Place: Ahmedabad Date: July 29, 2020

7वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी तथा बही बंदी की सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 कें लागू प्रावधानों और तदधीन विरवित नियमों के साथ पठित कापौरेट मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य सर्कुलर नंबर 20/2020, 14/2020, 17/2020 क्रमानुसार दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 तथा दिनांकित 5 मई, 2020 ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई, 2020 ("संबी सर्कुलर") के अनुपालन में जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड ("कम्पनी") की 7वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम'), एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय के निष्पादन हेतु. शुक्रवार, 21 अगस्त, 2020 को अप. 1.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑबियो विजुअल मीन्स ("ओवीएएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों को किसी उमय स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के निबन्धनों में, 7वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2019-20 हेत् वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेत् लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दिया गया है, उन सदस्यों को 29 जुलाई, 2020 को केवल ई-मेल द्वारा भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता कम्पनी अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास पंजीबद्ध है। 7वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के माध्यम से

विच्छेदन तिथि (कट ऑफ-डेट) अर्थात 14 अगस्त, 2020 को भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में इक्विटी शेयरों के धारक सदस्य एजीएम की सुचना में सुचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय के संबंध में अपना बोट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("लिंक इनटाइम") की रिमोट ई—बोटिंग / ई—वोटिंग सुविचा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि : एजीएम सुचना में सुचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के

- माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है ; रिमोट ई-वोटिंग 18 अगस्त, 2020 को पूर्वा, 9.00 बजे (आईएसटी) आरंग होगी ;
- रिमोट ई-वोटिंग 20 अगस्त, 2020 को अप. 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी :
- लिंक इनटाइम द्वारा उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जाएगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने के बाद उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए पात्रता निर्धारण हेतु विच्छेदन
- तिथि (कट ऑफ-डेट) 14 अगस्त, 2020 है ; कंबल वह व्यक्ति रिमोट ई-बोटिंग / एजीएम में ई-बोटिंग द्वारा बोट खालने का हकदार होगा,
- जिसका नाम सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों की पंजिका में विच्छेदन तिथि (कट ऑफ-डेट) 14 अगस्त, 2020 को मौजूद होगा। (vii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने के बाद सदस्य एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का हकदार
- (viii) सदस्य रिमोट ई−वोटिंग द्वारा मतदान अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, परंतु उसको बैठक में दोबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा विच्छेदन तिथि (कट ऑफ-डेट) 14 अगस्त, 2020 को शेयरधारक है ई-मेल rajiv.ranjan@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, कोई व्यक्ति जो ई-वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम के साथ पहले से पंजीकत है, वह अपनी वर्तमान युजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग वोट डालने के लिए कर
- ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह या शिकायत की रिथति में सदस्यगण https://instavote.linktime.co.in के हेल्यसेक्शन देखें अथवा श्री राजीव रंजन (असिस्टैंट वाइस-प्रेसिडेंट), लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विखरोली वेस्ट, मुंबई-400083 से सम्पर्क नंबर 022-49186000 पर (ई-मेल rajiv.ranjan@linkintime.co.in) पर सम्पर्क करें अथवा कम्पनी से सम्पर्क करें ।
- भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य, जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा जो 7वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2019-20 हेत् वार्षिक रिपोर्ट तथा / अथवा ई-वोटिंग सहित वीसी / ओवीएएम सुविधा के माध्यम से 7वीं एजीएम से जुड़ने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, अब अपना ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकृत करवा सकते हैं। इस प्रयोजन हेतु वे फोलियों नंबर, पूरा पता और पंजीकृत करवाने हेतु ई—मेल पता के उल्लेखयक्त स्वहस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की रुकैन की गई प्रति, पैन कार्ड और सदस्य के पंजीकृत पता के समर्थन में किसी दस्तावेज की स्व सत्यापित प्रति ई-मेल द्वारा कम्पनी को investorcare.jshl@jindalstainless.com पर भेज सकते हैं। डीमैट रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अपना ई-मेल पता केवल उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के पास पंजीकृत करवाने का अनुरोध किया जाता है।
- एजीएम की सुचना कम्पनी की वेबसाइट www.ishlstainless.com पर तथा लिंक इनटाइम की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।
- (xiii) श्री कमल गुप्ता, अधिवक्ता, को ई-बोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से करने हेत् संवीक्षक नियक्त किया गया है।
- कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां सोमवार, 17 अगस्त, 2020 से मंगलवार, 18 अगस्त, 2020 (दोनों तिथियों सहित) तक 7वीं एजीएम के प्रयोजन हेत् बंद रहेंगी।

एजीएम की सबना कम्पनी की वेबसाइट www.ishlstainless.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

स्थान : हिसार

वास्ते जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड (भारतेन्दु हारीत्)

तिथि : 29 जुलाई, 2020 कम्पनी सचिव जिन्दल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड

(CIN: L27205HR2013PLC049963) पंजीकृत कार्यालय : ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125005 (हरियाणा) फोन नं. (01662) 222471-83, फैक्स नं. (01662) 220499 कॉर्पोरेट कार्यालय: जिन्दल सेंटर, 12 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

ई-मेल : investorcare.jshl@jindalstainless.com, येवसाईट: www.jshlstainless.com,

SKYLINE INDIA LIMITED

Reg. Office: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi- 110055 CIN: L51909DL1996PLC075875 Email: skylineindia96@gmail.com. Phone +91-11-23541110, Website: www.skylineindia.co.in EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

S.	V. 844023 090000	Quarte	r Ended	Year Ended		
No.	Particular	31.03.2020 UN-AUDITED	31.03.2019 UN-AUDITED	31.03.2020 AUDITED	31.03.2019 AUDITED	
1	Total Income from Operation(Net)	14.17	59.33	40.05	147,27	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(20.16)	(20.16)	(22.24)	-22.24	
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(20.16)	(20.16)	(22.24)	-22.24	
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional anti/or Extraordinary flems)	[20.81]	(20.81)	(22.89)	-22.89	
5	Paid-up Equity Share Capital	398.26	398.26	398.26	398.26	
6	Reserves (excluding Revaluation reserve as Shown in the Balance Sheet of previous year)	(148.15)	(146.16)	(146.15)	-123.26	
7	Earnings Per Share (EPS) (in Rs.)	9				
	Basic	[0.52]	(0.52)	[0.54]	-0.56	
	Diluted	(0.52)	(0.52)	(0.54)	-0.56	

- The above is an extract of the detailed format of Audited Quarterly and Year Ended 31.03.2020 Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Year Ended Financial Results are available on the Stock Exchange website www.msei.in and on Company's Website www.skylineindia.co.in
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting

Place: Delhi Dated: 29th July, 2020

> एमको इंडिया लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 10785, शॉप नं. जीएफ-7, झंडेवालान रोड, रिजाइन बाजार, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 कॉपॉरेट कार्यालयः सी 63-64, सैक्टर-67, नोएडा, उत्तर प्रवेश-201301 CIN: L74899DL1987PLC029035 फोन (पंजी. कार्यालय) 011- 23636320; (कॉपॉरेट कार्यालय) 0120-4601500 ई-मेल amco.india@ymail.com वेबसाइटwww.amcoindialimited.com

ई-मेल पते एवं बैंक खाता विवरण पंजीकरण कराने हेतु सदस्यों के लिए सुचना भारत सरकार द्वारा की गई हरित-अपनाएं पहल और सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अपने सभी सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे कम्पनी के रिकार्ड में अपने ई-मेल पते एवं बैंक खाता विवरणों को अपजेट कराएं जिससे उन्हें कम्पनी द्वारा भेजे गए सभी संवाद समय पर मिल जाएं और कम्पनी द्वारा समय-समय पर घोषित लाभांश सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच जाएं।

इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई बाधा को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने पत्र क्रमण दिनांक 5 मई, 2020 एवं 12 मई, 2020 के माध्यम सें यह निर्देश दिये हैं कि कंपनियां अपने सभी सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य संवाद ("संयुक्त रूप से वार्षिक रिपोर्ट के रूप में ज्ञात") के साथ वार्षिक आम बैठक की सचना केवल कम्पनी के साथ उनके पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से भेजें। कृपया ध्यान दें कि सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं कराया है वह वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त

इसलिए, सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है या अपना बैंक खाता विवरण अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) / डिपॉजिटरी प्रतिभागी

फिजिकल होल्डिंग | कम्पनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को अनुरोध भेजें: बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली-110062 फोन : 011-29961281-283, 26051061, 26051064 ई-मेल : investor@beetalfinancial.com

कृपया अपने डीपी से सम्पर्क करें और आपके डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता एवं बैंक खाता विवरण पंजीकृत कराएं। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.amcoindialimited.com एवं बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट

www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। कृते एमको इंडिया लिमिटेड

स्थान : नोएडा, यूपी सुबत मोहन गुप्ता दिनांक : 29.07.2020 कम्पनी सचिव



फोन नं. (01662) 222471-83, फैक्स नं. (01662) 220499 ई-मेल आईडी : investorcare@jindalstainless.com, वेबसाइट : www.jslstainless.com कार्पोरेट ऑफिस : जिंदल सेंटर, 12, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066

40वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी और पुस्तक बंद होने की सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि

. कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य सर्कुलर नंबर 20/2020, 14/2020, 17/2020 क्रमानुसार दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा दिनांक 5 मई, 2020 ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/ सीएफडी / सीएमडी१ / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 ("सेबी सर्कुलर") के अनुपालन में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ("कम्पनी") की 40वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय के निष्पादन हेतु, शुक्रवार, 21 अगस्त 2020 की सुबह 11.00 बजे (भामास) वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओवीएएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों को किसी उभय स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

- एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के निबन्धनों में, 40वीं एजीएम की सुचना तथा वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दिया गया है, उन सदस्यों को 29 जुलाई, 2020 को केवल ई-मेल द्वारा भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता कम्पनी अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीबद्ध है। 40वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।
- विच्छेदन तिथि (कट ऑफ-डेट) अर्थात 14 अगस्त, 2020 को भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में इक्विटी शेयरों के धारक सदस्य एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय के संबंध में अपना वोट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('लिंक इनटाइम' की रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि : एजीएम सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा
- वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है;
- ii. रिमोट ई-वोटिंग 18 अगस्त, 2020 को पूर्वा. 9.00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी; iii. रिमोट ई-वोटिंग 20 अगस्त, 2020 को अप. 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी;
- iv. लिंक इनटाइम द्वारा उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जाएगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने के बाद उसमें परिवर्तन करने की अनुमति
- ए. रिमोर्ट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए पात्रता निर्धारण हेत्. विच्छेदन तिथि (कट ऑफ-डेट) 14 अगस्त, 2020 है;
- कंबल वह व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने का हकदार होगा. जिसका नाम सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनरक्षित लाभार्थी स्वामियों . की पंजिका में विच्छेदन तिथि (कट ऑफ-डेट) 14 अगस्त, 2020 को मीजुद होगा। vii. रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने के बाद सदस्य एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का
- viii. सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, परंतु उसको बैठक में दोबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ix. कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा विच्छेदन तिथि (कट ऑफ-डेट) 14 अगस्त, 2020 को शेयरधारक है ई-मेल rajiv.ranjan@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि कोई व्यक्ति जो ई-बोटिंग के लिए लिंक इनटाइम के साथ पहले से पंजीकृत है, वह अपनी वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग वोट डालने के
- x. ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह या शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण https://instavote.linkintime.co.in के हेल्पसेक्शन देखें अथवा श्री राजीव रंजन (असिस्टेंट वाइस-प्रेसिडेंट), लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विखरोली वेस्ट, मुंबई-400083 से सम्पर्क नंबर 022-49186000 पर (ई—मेल rajiv.ranjan@linkintime.co.in) पर सम्पर्क करें अथवा कम्पनी से सम्पर्क करें ।
- xi. भौतिक रूप से शेयरों के धारक सदस्य, जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा जो 40वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तथा / अथवा ई-वोटिंग सहित वीसी / ओवीएएम सुविधा के माध्यम से 40वीं एजीएम से जुड़ने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के इच्छक हैं, अब अपना ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकृत करवा सकते हैं। इस प्रयोजन हेतु वे फोलियो नंबर, पूरा पता और पंजीकृत करवाने हेतु ई—मेल पता के उल्लेखयुक्त स्वहस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और सदस्य के पंजीकृत पता के समर्थन में किसी दस्तावेज की स्व सत्यापित प्रति ई-मेल द्वारा कम्पनी को investorcare@jindalstainless.com पर भेज सकते है। डीमैट रूप में शेयरों के घारक सदस्यों से अपना ई-मेल पता केवल उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियाँ) के पास पंजीकृत करवाने का अनुरोध किया जाता है।
- xii. एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.isistainless.com पर तथा लिंक इनटाइम की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है। xiii. निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग के पर्यवेक्षण के लिए श्री संदीप गर्ग. अधिवक्ता
- को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां सोमवार, 17 अगस्त, 2020 से
- मंगलवार, 18 अगरत, 2020 (दोनों तिथियों सहित) तक 40वीं एजीएम के प्रयोजन हेत् बंद एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jsistainless.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की

वेबसाइट www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। कृते जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 29 जुलाई, 2020

(नवनीत रघुवंशी)

कंपनी सचिव



CIN: L01111DL1993PLC052845 पंजी. कार्या.: 5190, लाहौरी गेट, दिल्ली - 110006 फोनः 011-23968328, फैक्सः 011.23968327 ईमेलः investor@krblindia.com; वेबसाइटः www.krblrice.com

केवारबीएल लिमिटेड के सभी इक्विटी शेयरघारकों के ध्यानार्थ सार्वजनिक सूचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) उचन्त खाते में इक्विटी

शेयरों का अंतरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 124(6) के अनुसार) यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 7 सितम्बर, 2016 से प्रभावी एवं समय-समय पर सुधार/यथासंशोधित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है।

कथित प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 23.09.2013 को कंपनी द्वारा घोषित लागांश जो कि सात वर्षों की अवधि से अदावाकृत/अप्रदत्त

है, उसे 30 अक्टूबर, 2020 को आईईपीएफ के पास जमा किया जाएगा। संगत शेयर जिन पर पिछले निरंतर सात वर्षों से लाभांश अदावाकृत/अप्रदत्त है, उन्हें भी कथित नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतरित किया जाएगा। कम्पनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित नहीं करेगी जिनमें ऐसे शेयरों के अंतरण के लिए कोर्ट / ट्रिब्यूनल के विशेष आदेश द्वारा रोक हैं या ऐसे शेयर जो डिपॉजिटीज अधिनियम, 1996 के अंतर्गत रेहन / बंधक हैं। ऐसे शेयरधारक जिन्होंने पिछले निरंतर सात वर्षों से (अब तक) अपने लामांश का भुगतान नहीं लिया है और जिनके शेयर आईईपीएफ उचन्त खाते में अंतरित किये जाने के पात्र है, उनकी सूची कंपनी की वेबसाइट www.krblrice.com पर प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा, कंपनी ने पहले ही ऐसे शेयरघारकों को जानकारी देने के लिए व्यक्तिगत पत्र भी भेजें हैं जिनके शेयर आईईपीएफ उचन्त खाते में क्रेडिट से पूर्व शेयरों के दावे पर उचित कार्यवाही करने के लिए आईईपीएफ उचन्त खातें को अंतरित किये जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

संबंधित शेयरघारक जिनके शेयर भौतिक प्रारूप में घारित है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले इप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे शेयरों के जारी होने पर कंपनी बुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डिमेट प्रारूप में बदलने और आईईपीएफ के पक्ष में अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सुवित करेंगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत है, बाद में स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और गैर-विनिमेय माने जाएंगे। संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में है, कृपया नोट

करें कि कंपनी आईईपीएफ के डिमेट खाते में शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सचित करेगी। शेयरधारक कृपया नोट करें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को एक बार अंतरित किये गये लाभांश एवं शेयरों को वापिस लेने का दावा आईईपीएफ नियमों (आईईपीएफ वेबसाइट http://www.iepf.gov.in को देखें) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण के पास किया जा सकता है

और इस संबंध में कंपनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

यदि कंपनी को 30 सितम्बर, 2020 तक संबंधित शेयरधारकों से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है तो उसके बाद आपके अनुरोध को प्रक्रियागत करना कंपनी के लिए असुविधाजनक होगा और कंपनी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालने करते हुए शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के पास डिमेटियरलाइज्ड एवं अंतरित कर देगी। इस संबंध में किसी भी जानकारी / स्पष्टीकरण के लिए संबंधित शेयरधारक

कंपनी को ई-मेलः investor@krblindia.com पर लिख सकते हैं या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट-अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाइट्स, 3ई / 7, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, फोनः 011-42541955/ 59 ई-मेलः ramap@alankit.com से सम्पर्क कर सकते हैं। कृते केवारबीएल लिमिटेड

स्थानः नोएडा, उत्तर प्रदेश दिनांकः 29 जुलाई 2020

हस्ता/-रमन सप्रा कंपनी सचिव

अभिक्तचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण [दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया)

विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन] मैसर्स सोलो मैटल्स प्राइवेट लिमिटेड के संभावित संकल्प आवेदकों के ध्यानाकर्षण हेतु संबंधित विवरण

कॉरपोरेट देनदार का नाम मैसर्स सोलो मैटल्स प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेट देनदार के निगमन की तिथि 07-04-1995 उस ऑथेरिटी का नाम, जिसके अधीन कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कॉरपोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है | और हरियाणा, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 4. कॉरपोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान U74899DL1995PTC067306 संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या

5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय पीयू-108, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 भारत तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का कॉरपोरेट देनदार के सम्बंध में दिवाला 17-12-2019 प्रारंभ होने की तिथि

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेत् आमंत्रण की 30-07-2020 कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों (एकल, संयुक्त रूप से अथवा समाधान आवेदकों के लिए पात्रता संघ रूप में) के लिए समाधान योजना के साथ निम्नलिखित पर उपलब्ध है: समाधान प्रोफेशनल ("आरपी") के पास पहुंचने हेत् न्यूनतम ग्राह्यता मानदंड हैं:-निकाय कार्पोरेट्स तथा अन्य व्यक्तियों के लिए :

दिनांक 31.03.2019 तक भारतीय रूपए 2 करोड़ का न्यूनतम नेट वर्थ, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित। • फंडस / पीई निवेशकों / वित्तीय संस्थाओं के लिए : 31-03-2019 को प्रबंधन अथवा अभिनियोजित फंड्स अथवा वचनबद्ध फंड्स के तहत निवेश हेतु भारतीय रूपए 100 करोड की न्यूनतम आस्तियां पूर्ण विवरण वेबसाइट www.arck.in पर उपलब्ध है| अथवा insolvency@arck.in से ई—मेल द्वारा प्राप्त

धारा 29ए के अधीन लाग् अयोग्यता के बेवसाईट पर उपलब्धः मानक निम्नलिखित पर उपलब्ध है: www.arck.in - IBBI : www.ibbi.gov.in या विवरण insolvency@arck.in पर ईमेल द्वारा मांगा जा सकता है

किया जा सकता है

11. संभावी समाधान आवेदकों के अनंतिम 24-08-2020 सची निर्गमन की तिथि 12. अनंतिम सूची के आपत्तियों को जमा करने 29-08-2020 की अंतिम तिथि

10. अभिरूचि के अभिव्यक्ति के प्राप्ति की अंतिम 14-08-2020

निर्गमन की तिथि 14. संभावी समाधान आवेदकों को सूचना 29-08-2020 ज्ञापन, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स तथा समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध के निर्गमन की

13. संभावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची 08-09-2020

15. समाधान योजना के लिए अनुरोध अस्थायी सूची में सभी संभावित समाधान वैल्यूएशन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा|आवेदकों (''पीआरए'') और उन पीआरए जिन्होंने अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका अनंतिम सूची में उनके शामिल होने के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उन्हें समाधान योजना (आरएफआरपी), मृत्यांकन मैट्रिक्स और सूचना ज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुरोध प्रदान किया जाएगा। insolvency@arck.in पर ई-मेल

भेजकर और जानकारी प्राप्त की जा सकती है 16. समाधान योजना को जमा करने की अंतिम 03-10-2020

17. समाधान प्रोफेशनल के पास समाधान insolvency@arck.in पर ई-मेल के द्वारा या पंजी. पोस्ट / स्पीड पोस्ट या सील बंद लिफाफे में योजनाओं को जमा करने का तरीका व्यक्तिगत रूप से जमा करें

18. अनमोदन के लिए न्याय निर्णयन प्राधिकारी 23-10-2020 के पास समाधान योजना को जमा करने की अनुमानित तिथि 19. समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा नाम श्री अशोक कमार दीवान

पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-001/IP-P00603/2017-18/11054 20. समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता तथा नाम: श्री अशोक कुमार दीवान ई-मेल. जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकत है | पता: बी1 / डी2. द्वितीय तल. मोहन

ईमेलः akdewan1001@gmail.com

21. समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के पताः एआरसीके रिजॉल्युशन प्रोफेशनल्स लिए प्रयक्त होने वाला पता तथा ई-मेल एलएलपी, 409, चतुर्थ तल, अंसल भवन, 16 के जी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001 ईमेल : insolvency@arck.in

22. अधिक विवरण निम्नलिखित पर या के पास बेवसाईट : www.arck.in उपलब्ध है या विवरण insolvency@arck.in पर ईमेल कर रिजॉल्युशन प्रोफेशनल्स् से प्राप्त किया जा सकता

23. फॉर्म-जी के प्रकाशन की तिथि 30-07-2020 अशोक कुमार दीवान संकल्प पेशेवर

को-ऑपरेटिव औद्योगिक ईस्टेट, नई दिल्ली -

रजि. नंबर: IBBI/IPA-001/IP-P00603/2017-18/11054 पंजी. पताः बी1 / डी2, द्वितीय तल, मोहन को-ऑपरेटिव औद्योगिक ईस्टेट, नई दिल्ली - 110044

तिथि: 30.07.2020 कृते मैसर्स सोलो मैटल्स प्राइवेट लिमिटेड स्थानः नई दिल्ली

www.readwhere.com